

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15012025-260248
SG-DL-E-15012025-260248असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 338
No. 21]	DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/ PAUSHA 23, 1946	[N. C. T. D. No. 338

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2025

फा.सं. जीजीएसआईपीयू/कॉर्ड/ओआरडी.10-11/84वीं बीओएम/अमेन्ड/2024/437 गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 9) की धारा 27(2) के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल ने दिनांक 04 वीं अक्टूबर 2024 को आयोजित अपनी 84 वीं बैठक में कार्यसूची मद सं 84.24 के द्वारा, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार वर्तमान अध्यादेश 10 और 11 के खण्ड 4.4 और 13(4) में निम्न संशोधनों को स्वीकृति दे दी:

क्रम सं	अध्यादेश एवं प्रासंगिक खण्ड	विद्यमान खण्ड	संशोधित खण्ड
	अध्यादेश 10 खण्ड 4.4	(i) किसी भी छात्र को, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना में असम्मिलित विषय(ों) अथवा पाठ्यक्रम ओर शिक्षण एवं परीक्षा योजना में ऐच्छिक विषयों जिन्हें छात्र ने क्रेडिट विषय के रूप में नहीं माना है, अथवा जैसा खण्ड 14 में विनिर्दिष्ट हो, की "संपरीक्षा" की अनुमति होगी। अकादमिक कार्यक्रम समिति	(i) किसी भी छात्र को, पाठ्यक्रम ओर शिक्षण एवं परीक्षा योजना के अनुसार विषयों के चुनाव की अनुमति होगी।

		छात्र के आवेदन पर उसे विषय की "संपरीक्षा" की अनुमति दे भी सकती है / अनुमति नहीं भी दे सकती।	
		(ii) विश्वविद्यालय किसी छात्र को एक अथवा अनेक विषयों की "संपरीक्षा" के लिये कह सकता है जिससे कि वह पूर्वापेक्षित कमी की भरपाई कर सके।	यदि छात्र, किसी विषय को उत्तीर्ण नहीं कर सका हो, उसे पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम क्रेडिट एवं खण्ड 14 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक क्रेडिट को पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना के अनुसार ऐसे विषय को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, वास्तविक घोषित <u>परिणाम/अंक</u> शैक्षणिक दस्तावेजों यानी मार्कशीट/ ग्रेडशीट/ समेकित ग्रेडशीट आदि में मुद्रित किए जाएंगे और एबीसी, एनएडी आदि जैसे पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
		(iii) इस प्रकार के "संपरीक्षित" विषय(ों) को, सुस्पष्ट शीर्ष "संपरीक्षित विषय(ों) के अंतर्गत सत्रांत अंक तालिका में दर्शाया जायेगा बशर्ते कि विषय में उपस्थिति-अपेक्षा के विधिवत् प्रमाणन को संबंधित शिक्षक(ों) ने निष्पादित कर दिया हों। तथापि, छात्र, इस के विषयों के लिये किसी भी प्रकार के क्रेडिट्स के पात्र नहीं होंगे और न ही परिणाम घोषित किये जाने के उद्देश्य से इन पर विचार ही किया जायेगा।	सम्पूर्ण खण्ड हटाया गया
	अध्यादेश 10 खण्ड 13(4)	ए जी पी ए और सी जी पी ए की गणना के लिये लेखा पत्रकों (खण्ड 4.4 के अनुसार) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 	दी गई पंक्ति हटाई गई
	अध्यादेश 11 खण्ड 4.4	(i) किसी भी छात्र को, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना में असम्मिलित विषय(ों) अथवा पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना में ऐच्छिक विषयों जिन्हें छात्र ने क्रेडिट विषय के रूप में नहीं माना है, की "संपरीक्षा" की अनुमति होगी। अकादमिक कार्यक्रम समिति छात्र के आवेदन पर उसे विषय की "संपरीक्षा" की अनुमति दे भी सकती है / अनुमति नहीं भी दे सकती। (ii) विश्वविद्यालय किसी छात्र को एक अथवा अनेक विषयों की "संपरीक्षा" के लिये कह सकता है जिससे कि वह पूर्वापेक्षित कमी की भरपाई कर सके।	(प) किसी भी छात्र को, पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना के अनुसार विषयों के चुनाव की अनुमति होगी। (पप) यदि छात्र, किसी विषय को उत्तीर्ण नहीं कर सका हो, उसे पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम क्रेडिट एवं खण्ड 14 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक क्रेडिट को पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना के अनुसार ऐसे विषय को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, वास्तविक घोषित <u>परिणाम/अंक</u>

			शैक्षणिक दस्तावेजों यानी मार्कशीट / ग्रेडशीट / समेकित ग्रेडशीट आदि में मुद्रित किए जाएंगे और एबीसी, एनएडी आदि जैसे पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
		(iii) इस प्रकार के "संपरीक्षित" विषय(ों) को, सुस्पष्ट शीर्ष "संपरीक्षित विषय(ों)" के अंतर्गत सत्रांत अंक तालिका में दर्शाया जायेगा बशर्ते कि विषय में उपस्थिति-अपेक्षा के विधिवत् प्रमाणन को संबंधित शिक्षक(ों) ने निष्पादित कर दिया हों। तथापि, छात्र, इस के विषयों के लिये किसी भी प्रकार के क्रेडिट्स के पात्र नहीं होंगे और न ही परिणाम घोषित किये जाने के उद्देश्य से इन पर विचार ही किया जायेगा।	सम्पूर्ण खण्ड हटाया गया
	अध्यादेश 11 खण्ड 13(4)	एस जी पी ए और सी जी पी ए की गणना के लिये लेखा पत्रकों (खण्ड 4.4 के अनुसार) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।	दी गई पंक्ति हटाई गई

यह संशाधित अध्यादेश, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये स्वीकृति दिनांक, अर्थात् 04/10/2024 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता

डॉ. कमल पाठक कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2025

F.No. GGSIPU/Coord/Ord.10-11/84th BOM/Amend/2024/437—In pursuance of the provisions of Section 27 (2) of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act 1998 (Act 9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 84th meeting held on 04.10.2024 vide resolution to agenda item no. 84.24 approved the following amendments in the clause 4.4 and Clause 13(4) of the existing Ordinance 10 and 11 of the University:

S. No.	Ordinance & relevant Clause(s)	Existing Provisions	Amended Provisions
1	Ordinance 10 Clause 4.4	(i) A student may be allowed to "audit" a course(s) not included in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, or one of the elective course(s) in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, which the student is not opting for as a credit	(i) A student may be allowed to opt a course(s) as per Syllabi and Scheme of Teaching and Examination.

S. No.	Ordinance & relevant Clause(s)	Existing Provisions	Amended Provisions
		course, or as prescribed in clause 14. The Academic Programme Committee shall allow/disallow a student to take a “audit” course on the application of the student.	
		(ii) The University may ask a student to “audit” one or more courses, so as to make up any pre-requisite deficiency.	(ii) A student, who could not pass a course(s), may be allowed to drop such course(s) as per Syllabi and Scheme of Teaching for completion of credit requirement for award of degree as per the minimum and maximum credits specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and clause 14. However, actual declared result/marks will be printed in the academic documents i.e. Marksheet/ Gradesheet/ Consolidated Gradesheet etc. And so as to upload in the portal like ABC, NAD etc.
		(iii) Such audited course(s) shall be shown in the term end marksheet under a distinct head of “Audited Course(s)” provided the attendance requirement of the course is duly certified to have been met by the concerned teacher(s). However, a student shall neither be entitled to any credits for such course(s) nor these shall be considered for the purpose of declaration of results.	Deleted
2	Ordinance 10 Clause 13 (4)	Audit papers (as per clause 4.4) shall not be accounted for in the calculation of AGPA and CGPA.	Deleted
3	Ordinance 11 Clause 4.4	(i) A student may be allowed to “audit” a course(s) not included in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, or one of the elective course(s) in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, which the student is not opting for as a credit course. The Academic Programme Committee shall allow/disallow a student to take a “audit” course on the application of the student.	(i) A student may be allowed to opt a course(s) as per Syllabi and Scheme of Teaching and Examination.
		(ii) The University may ask a student to “audit” one or more courses, so as to make up any pre-requisite	(ii) A student, who could not pass a course(s), may be allowed to drop such course(s) as per

S. No.	Ordinance & relevant Clause(s)	Existing Provisions	Amended Provisions
		deficiency.	Syllabi and Scheme of Teaching for completion of credit requirement for award of degree as per the minimum and maximum credits specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and clause 14. However, actual declared result/marks will be printed in the academic documents i.e. Marksheet/ Gradesheet/ Consolidated Gradesheet etc. And so as to upload in the portal like ABC, NAD etc.
		(iii) Such audited course(s) shall be shown in the term end marksheet under a distinct head of "Audited Course(s)" provided the attendance requirement of the course is duly certified to have been met by the concerned teacher(s). However, a student shall neither be entitled to any credits for such course(s) nor these shall be considered for the purpose of declaration of results.	Deleted
4	Ordinance 11 Clause 13(4)	Audit papers (as per clause 4.4) shall not be accounted for in the calculation of SGPA and CGPA.	Deleted

This amendment shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 04.10.2024.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar